

12.06 hrs.

Title: Regarding recent incidents at India-Bangladesh Border.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI JASWANT SINGH): Hon. Member are aware of the grave incidents on the India-Bangladesh border during 16-19th April, 2001, caused by the unwarranted and unprovoked intrusion by the Bangladesh Rifles forces into the village of Pyriduwah, in the East Khasi Hill District of Meghalaya.

Tension, thereafter, spread to other sectors, including in Assam where there was heavy exchange of fire between the BSF and the BDR in Boraibari on the night of April 17-18. On 18th April morning, one of the BSF patrol parties went missing. Thereafter, we learnt with concern that Bangladesh media had reported a statement by the Director-General, Bangladesh Rifles, that 16 BSF personnel had been killed in an encounter.

The matter was immediately taken up through the regular channels of the BSF as also through diplomatic channels both in Delhi and in Dhaka, to convey our grave concern at this unprovoked and unwarranted intrusion by the BDR and calling for immediate cessation of firing; withdrawal of the BDR and restoration of the *status quo ante*.

Confirmation was received from the Bangladesh Government, the same night (18th April), that necessary instructions were being issued for withdrawal of the BDR and restoration of *status quo ante*. This withdrawal was completed by the night of 19th April.

When the bodies of our BSF personnel were returned on 20th evening, as demanded by us, shocking marks of injury and mutilation, as also evidence of eight of them having been shot at point blank range were found. In the case of Deputy Commandant Mandal, *rigor mortis* was just setting in, indicating that death had occurred within the last 24 hours. The marks of injury on all bodies were recorded and signed by representatives of both BSF and BDR.

A strong protest was lodged with the Government of Bangladesh at the inhuman treatment of our BSF personnel. We have been assured by the Bangladesh Government that all aspects of these incidents would be investigated, also that the BDR action was taken without their knowledge and was regrettable. Prime Minister Sheikh Hasina has spoken to Prime Minister Vajpayee last night. The Prime Minister conveyed to her India's deep sense of hurt and anguish over the inhuman treatment meted out to our BSF personnel. Sheikh Hasina stated that she, too, was deeply saddened and concerned by these incidents and confirmed that a full investigation would be carried out into all aspects of the incidents including the mutilation of the bodies of BSF personnel.

Earlier, I had received a call from the Bangladesh Foreign Minister expressing exactly the same sentiment.

I would like to reiterate that strong ties of friendship exist between the two countries, and acts of criminal adventurism should not be permitted to affect these ties. It is now up to the Government of Bangladesh to act against the perpetrators of these crimes and restore confidence and trust.

The Government of India would like to place on record admiration for the selfless sacrifice of our brave BSF personnel. Our hearts go out to their families.

Thank you.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Leader of the Opposition wants to make a submission.

...(Interruptions)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्मल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि बंगलादेश के साथ हमारी मित्रता हो लेकिन हमारे जवानों के इस तरह शहीद होने की कीमत पर यह कैसी दोस्ती है? (व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में नोटिस दिया है। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have given the floor to the hon. Leader of Opposition.

SHRIMATI SONIA GANDHI (AMETHI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the brutal killing of our brave jawans of the BSF by Bangladesh Rifles personnel and the indignities perpetrated on them even as the bodies were being returned have shocked and shaken every one of us, every Indian.

We condemn this inhuman and barbarous act in the strongest terms. I join the hon. Minister of External Affairs in expressing our profound sorrow and deep anguish to the members of the bereaved families. No word of ours can

soften the blow that has befallen them.

The Congress Party treats this as a national matter, which impinges directly on our relationship with Bangladesh. We attach great importance to this relationship. At the same time, it is our earnest hope that the Government of Bangladesh, without delay, would constitute an inquiry and bring to book those guilty of this heinous crime. I also hope that such an incident would not be repeated, lest it adversely affects our bilateral relationship.

At this moment, I do not wish to say more except that the hon. External Affairs Minister's statement allays some of our doubts and fears but not all of them. I trust, as more facts come to light, that the Government would keep this House informed. Was there an intelligence failure? Was there any slackness in vigilance? These are grave matters to which this House and the country await answers.

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात से सहमत हैं कि बंगलादेश और हिन्दुस्तान के बीच अच्छे रिश्ते कायम हों। बंगलादेश से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमारे हजारों जवान शहीद हुए और हिन्दुस्तान का अरबों रुपया बरबाद हुआ। हमने एक लाख लोगों को लगातार अपने देश में संरक्षण भी दिया और जमीन जायदाद सब कुछ दिया। रक्षा मंत्री जी का इस बारे में जो बयान आया है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आपने इसका कहां विरोध किया और कैसा विरोध किया? उनके साथ दोस्ती हो लेकिन हमारे जवानों की लाश की कीमत पर यह कैसी दोस्ती है, इस सम्बन्ध में हम जरूर जानना चाहते हैं? इसी तरह से कश्मीर के मामले में भी हो रहा है। वहां की जनता और फौज की जान की कीमत पर दोस्ती की बात चल रही है।

हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से और बांगला देश के साथ अच्छे रिश्ते हों लेकिन जिस तरह से हमारे देश के जवानों की हत्या की गई है, उससे यह साबित हो गया है कि हमारे जवानों को पकड़-पकड़ कर ले गये, उनके साथ उत्पीड़न किया गया, अत्याचार किया गया। रक्षा मंत्री जी ने खुद कहा है कि उन्हें नजदीक से शूट किया गया, उन्हें गोली मारी गयी और पकड़-पकड़ कर मारा गया। यह अमानवीय व्यवहार है और बाकायदा बांगला देश में हिन्दुस्तान के प्रति नफरत फैलाने के लिये पूरी साजिश है। क्या इस कांड में अकेला बांगलादेश शामिल है या इसमें पड़ोसी देश भी शामिल है?

उपाध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। उन्हें इस बात की रिसर्च करनी चाहिये और इस सवाल को गंभीरता से लेना चाहिये। उपाध्यक्ष जी, एक कहावत है : "भय बिन प्रीत न होवे देवा, लाख करो बैरी की सेवा" इस घटना से पूरा देश दुखी है, पूरे देश की जनता दुखी है और सुस्खा बलों को लेकर सारे लोग दुखी हैं। आपको ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे हमारी सुस्खा बलों का मनोबल न गिरे। हमारे देश की ऐसी दहशत हो। आपके रहते हुये और आपकी सरकार के रहते हमारे देश की सीमायें सुरक्षित नहीं हैं, यह संदेश देश के लिये जाना अच्छा नहीं। हम इस विषय को लेकर राजनीति नहीं करना चाहते लेकिन यह साबित हो रहा है कि आपकी सरकार के रहते हमारे देश की सीमायें सुरक्षित नहीं है। इसके लिये आपको गंभीरता से उत्तर देना चाहिये। इसलिये अगर आप आज इस बात का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो वायदा करके कल या परसों तक इस सदन को उत्तर दीजिये। उपाध्यक्ष जी, बांगला देश के मामले में कोई छूट नहीं देनी चाहिये, हमारी यह शंका है। हम लोगों ने दोस्ती के लिये बहुत कुर्बानियां दी हैं लेकिन जिस तरह से हमारे देश के जवानों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, उसे देखते हुये यदि आप इस गंभीर सवाल का उत्तर देंगे तो अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप जानते हैं कि स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन या उत्तर देना हमारे हाउस की परम्परा नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष जी, यह देश का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने आपको सुना है। ऐसी सिचुएशन है कि सारा हाउस इस पर कन्सर्न है, इमोशनल है और हम सब का एंगुइश है। इसलिये रक्षा मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया है।

श्री मुलायम सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि नियमानुकूल है, हमने नियमावली देखी है, पढ़ी है। इसलिये हम उत्तर चाहते हैं कि जवानों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, इस मामले को बहुत ही संजीदगी से डील करना है।

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am allowing the hon. Members only to express their concerns, as an extra-ordinary case.

...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mulayam Singh Yadav, please resume your seat.

Now, Shri Yerrannaidu.

...(Interruptions)

SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the killing of BSF personnel by Bangladesh Rifles is a very serious matter. It is a heinous crime. We have to deal with it sternly. We have to use our diplomatic relations also. It is a very shocking news. When we are maintaining good relations with that country, why has it happened? In my view, something is wrong somewhere. So, we have to assess the situation. Even while we are maintaining good relations, this has happened and it is a very serious matter.

Everywhere this question is being asked. I went to my constituency and everybody was asking me this question – it is a small country, we are maintaining good relations; when it is so, why did it happen like this? Sixteen BSF personnel were killed in the incident. It is not a small thing. We have to create confidence in them. The Government of India also should take stern action.

On my own behalf and on behalf of my party – Telugu Desam Party – I convey heart-felt condolences to the members of the bereaved families.

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्री जी की ओर से बांगला देश की सीमा पर घटना के बारे में जो बयान दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है। जिस तरह की दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई है, उससे जाहिर होता है कि पिछले दिनों से जो बातें होती रही हैं, उससे हमारी सेनाओं का मनोबल नीचे गिरा है। रक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और हर कीमत पर अच्छे संबंध रखे जाने चाहिये, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस बात की पूरी तरह से खोज होनी चाहिये कि आज ऐसी कौन सी ताकत है जो हमारे संबंधों को खराब करने के लिये पूरी तरह सक्रिय है और देश के अंदर ऐसी उत्तेजनात्मक कार्यवाही के जरिये वातावरण को खराब करना चाहती है। इस संबंध में सरकार को स्पष्ट वक्तव्य देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में सरकार ने वक्तव्य दे दिया है।

श्री मोहन रावले : उपाध्यक्ष महोदय, अभी रक्षा मंत्री जी ने बयान दिया कि 17 अप्रैल को यह घटना घटी। मैंने 18 अप्रैल को यह मामला उठाया था। यहां प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी भी बैठे हुए थे। आपने इस पर बयान देने में इतनी देरी क्यों की। जिस तरह से हमारे जवानों को मारा गया, उबलता हुआ पानी उन पर फेंका गया, उनकी आंखों में चाकू मारे गये और उनकी लाशें तक उनके परिवार वालों को नहीं दी गई - यानी कितने भयानक तरीके से उन्हें मारा गया। एक छोटा सा देश जिसे हमने स्वतंत्रता दिलाई, जिसके लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियां की थीं, उसने हिम्मत कैसे की। हम कब तक अहिंसा का जप करते रहेंगे। आप कहेंगे कि इसके पीछे आई.एस.आई. है, अखबारों में आया कि इसके पीछे आई.एस.आई. है। आई.एस.आई. की एक्टिविटीज शुरू हैं। हमने बार-बार संसद में कहा है कि हमारे ईस्टर्न राज्यों की सीमाओं में आई.एस.आई. की एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। आज इन्होंने हमारे विरुद्ध ऐसा करने की हिम्मत की है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हम उनके खिलाफ एक्शन लें। कितने दिन हम सोचते रहेंगे। हमने ताशकंद समझौता किया, क्या हुआ, हमने शिमला समझौता किया, क्या हुआ, 1947 में हम अंदर घुस गये थे। कान्धार में हमने अजहर मसूद को छोड़ा, क्या हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ। अपरोक्ष युद्ध करके उनके द्वारा और पाकिस्तान की एजेन्सी आई.एस.आई. के द्वारा हमारे आदिमियों को मारा जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इस घटना पर बांगला देश के ऊपर हमला करे। आज लगभग चार करोड़ बांगलादेशी हिंदुस्तान में आये हुए हैं। अभी जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का राज मुम्बई में चल रहा था, तभी हमने यह बात निकाली थी, तब इसी सदन के कई लोगों ने इसका विरोध किया था। श्री बालासाहेब ठाकरे जो सच्चे देशभक्त हैं, उन्होंने कहा कि बांगलादेशी लोगों को हटाओ तो उनका मताधिकार छीन लिया गया। चार करोड़ लोगों को वोटों के लिए बोगस राशन कार्ड्स दिए जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर संयम बरतना है।

श्री मोहन रावले : आज हमारे कितने लोग मारे जा रहे हैं। हम कितना संयम करें। एक छोटा सा देश हमारे ऊपर हमला करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मि. मोहन रावले, यह एक डेलीकेट इश्यु है, इस पर जरा संभलकर बात करनी चाहिए।

श्री मोहन रावले : उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया तो भी हम इसे डेलीकेट समझें?

उपाध्यक्ष महोदय : आप रक्षा मंत्री के बयान को देखिये।

श्री मोहन रावले : उन्होंने लाल किले में घुसकर हमारे जवानों की हत्या की, नॉर्थ ब्लॉक की पार्किंग में बम मिला तो भी क्या हम चुप बैठे रहेंगे। हमें पाकिस्तान और बांगलादेश दोनों को सबक सिखाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मैंने चान्स दिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सीमा पर हमारे जवानों के साथ जो अमानुषिक और बर्बर व्यवहार हुआ है, इसका हमें दुख तो है ही, साथ में गुस्सा ज्यादा है। बांगलादेश की आजादी में हम लोगों का सहयोग है और एक समय यह आ गया कि हम ऐसी दुर्दशा देख रहे हैं। देहातों में लोग कहते हैं - "समय परे की बारम्बार, माछी मारे लथार"। मतलब बांगलादेश की सीमा पर हमारे जवानों की यह दुर्दशा। माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। देश जानना चाहता है कि हमारे जवान निहत्थे थे। लोग कहते हैं कि वहां की आम जनता ने घेरकर मार दिया। कुछ कहते हैं कि पहले उन्हें पकड़ लिया, तब मारा, उन्हें पीटा, घसीटा और दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया। इस पर हम लोग एकदम अंधकार में हैं। हमें नहीं बुझाता है कि असलियत क्या है, सीमा पर क्या हो रहा है। खुफिया रिपोर्ट आई या नहीं आई या खुफिया रिपोर्ट को दबा दिया गया। किस विभाग ने इसमें शिथिलता की, किसने मुस्तैदी नहीं बरती। यह सारा मामला हमारी आंखों में खटक रहा है। जिस दिन से हमने अखबार में देखा कि पीठ पर दोनों हाथ बांधे हुए हमारे जवान के साथ दुर्व्यवहार, दूसरे दिन देखा जैसे जानवर को टांगते हैं, वैसे ही बांस में हाथ-पैर बांधकर कंधे पर वहां के सिविलियन, बांगलादेश के लोग हमारे जवानों की डेडबॉडीज को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। वहां से क्षत-विक्षत लाशें मिली हैं, हमें नहीं बुझाता है कि इनके गृह विभाग, डिफेंस विभाग और इनके विदेश विभाग का काम दुरुस्त क्यों नहीं है। हम लोग सशंकित हैं कि आज देश सुरक्षित नहीं है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं और इस तरह के व्यवहार से हमारे जवानों का मनोबल और मनोदशा भी सुरक्षित नहीं लगती है।

इन लोगों ने बाद में लिखा-पढ़ी भी की है। इसलिए हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए।

â€¦(व्यवधान)

â€¦(व्यवधान) : श्री राजेश रंजन।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ज़ीरो अवर में आपका नाम भी है। आपको भी बुलाएंगे।

â€¦(व्यवधान)

SHRI PRIYA RANJAN DASMUNSI (RAIGANJ): Sir, we had been demanding for the JPC...(Interruptions)

12.26 बजे

(इस समय कुँवर अखिलेश सिंह, कर्नल सोनाराम चौधरी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please go to your seats. I will hear all of you.

...(Interruptions)

12.26 1/2 बजे

(इस समय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11a.m.

12.27 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Tuesday, April 24, 2001/Vaisakha 4, 1923 (Saka).
